

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14] दिल्ली, अक्टूबर 5—अक्टूबर 11, 2018, बृहस्पतिवार/ आश्विन 13—आश्विन 19, 1940
 No. 14] DELHI, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2018, THURSDAY/ASVINA 13—ASVINA 19, 1940

भाग II-II

PART II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 40/2016

कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

इमामी लिमिटेड

....

याचिकाकर्ता

विरुद्ध

अभिषेक मैनुफैक्चरिंग कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

...

प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433, 434 तथा धारा 439 (1) के साथ पढ़े माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तिथि 11.10.2017 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति तथा (वाइडिंगअप) हेतु एक याचिका इमामी लिमिटेड, 687, आनंदापुर, इ.म. बाईपास, कोलकाता- 700107 (वेस्ट बंगाल) जो कि प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 सी.पी. संख्या 40/2016 में शासकीय समापक को कंपनी के अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 13.12.2018 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 13.12.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं 5 पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी। कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देनी चाहिए।

हस्ता० :-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

दिल्ली उच्च न्यायालय

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां फ्लोर, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

स्थान : नई दिल्ली

फोन नं. 011- 24693393

दिनांक _____, 2018

[विज्ञापन - ए/II/08/18]

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

COMPANY PETITION NO. 40/2016

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:

EMAMI LIMITED

---PETITIONER

VERSUS

ABHISHEK MANUFACTURING CO. INDIA

PRIVATE LIMITED

---RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433, 434 (1) and 439 (1) of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court of Delhi on 11.10.2017, was presented to the Hon'ble High Court by the Emami Limited, 687, Anandapur, E.M. Bypass, Kolkata-700107 (W.B.), creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 11.10.2017 passed in C.P.No. 40/2016 appointed the Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 13.12.2018

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 13.12.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd/-

(D.K. SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH

COURT OF DELHI, 8th FLOOR, AWING,

LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET,
NEW DELHI-110 003.

PLACE: NEW DELHI

PH. NO. 011-24693393.

DATED _____, 2018

[ADVT.-A/II/II/08/18]

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 210/2014

कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

बी. आर. हाइड्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

रूपाणा पेपर मिल्स लिमिटेड

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 तथा 434 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तिथि 20.02.2014 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति (वाइंडिंग अप) हेतु एक याचिका, याचिकाकर्ता, **बी. आर. हाइड्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड**, पंजीकृत कार्यालय, खसरा न. - 89 प्लॉट न.-डी-5, गांव गाज़ीपुर दिल्ली- 110096 जो कि प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 तथा 20.07.2017 सी. पी. संख्या 210/2014 में शासकीय समापक को कंपनी के अंतरिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 12.12.2018 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 12.12.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा

अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी। कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देनी चाहिए।

हस्ता/-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां फ्लोर, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003

फोन नं. 011-24693393

फैक्स 24693314

[विज्ञापन - ए/II/III/18/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

C.P. NO. 210/2014

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

M/S. V.R. HYDROCHEM PVT. LTD.

.....PETITIONER

-VERSUS-

M/S. RUPANA PAPER MILLS LTD.

....RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 and 434 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above-named Company by the Hon'ble High Court at New Delhi was presented on 20.02.2014 to the Hon'ble High Court of Delhi by M/s.V.R. Hydrochem Pvt. Ltd. through its M.D. having office at Khasra No.89, Plot No.D-5, Village Ghazipur, Delhi-110096, Creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 05.02.2016 and 20.07. 2017 passed in C.P.No.210/2014 appointed the Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 12.12.2018 at 10:30 A.M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 12.12.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd/-

(D.K. SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO HIGH COURT OF DELHI

LOK NAYAK BAWAN, 8TH FLOOR,

KHAN MARKET, NEW DELHI-110003

PLACE: NEW DELHI

PH. 011-24693393, FAX: 24693314

[ADVT.-A/II/II/18/18]

DATED: _____

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 446/2013

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

सिटी कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड

....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

शिव वाणी आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड

.....प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 433 तथा 434 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तिथि 23.08.2013 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति (वाइडिंगअप) हेतु एक याचिका श्रीमान वी.के. गोगिआ, डी-111, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 जो की प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 सी.पी. संख्या 446/2013 में शासकीय समापक को कंपनी के अंतरिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 19.11.2018 को सुबह 10.30 बजे के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 19.11.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देनी चाहिए।

हस्ता० :-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां तल लोकनायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

फोन नं. 011 24693393

[विज्ञापन - ए/II/II/19/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)**

C.P. NO. 446/2013

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

CITICORP INTERNATIONAL LTD.

...PETITIONER

VERSUS

**SHIV-VANI OIL AND GAS EXPLORATION SERVICE LTD.
(IN PROV. LIQN.)**

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 and 434 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court at New Delhi was presented on 23.08.2013 to the Hon'ble High Court by Mr. V.K. Gogia, residing at D-111, Panchsheel Enclave New Delhi-110017, creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 28.07.2017 passed in C.P.No.446/2013 appointed the Official Liquidator as the Provisional Liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 19.11.2018 at 10:30 A. M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 19.11.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court and a copy served on the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd/-

(D.K. SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO HIGH COURT OF DELHI

LOK NAYAK BHAWAN, 8TH FLOOR,

PH. 011-24693393, FAX: 24693314

[ADVT.-A/II/II/19/18]

PLACE: NEW DELHI

DATED: